



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2004/पौष 15, 1925

No. 12]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2004/PAUSA 15, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2004

का.आ. 13(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 760 (अ) तारीख 4 जुलाई, 2003 द्वारा तमिलनाडु राज्य में 163.40 कि०मी० से 199.20 कि०मी० तक (बंगलौर - सलेम - मदुरै खण्ड) के भूखंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 का निर्माण करने (चार लेन का बनाने), अनुसूचन, प्रबन्धन और संचालन करने के प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जानी है ;

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर सभी वित्तीय हितों से मुक्त आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

## अनुसूची

जिला - सलेम

तालुक - ओमालुर

क्रम.सं.	गाँव का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	सर्वेक्षण सं.	क्षेत्रफल वर्ग मी० में	भू स्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	दीवट्टीपट्टी	सरकार	पोरमबोके	13/2	350	तमिलनाडू राज्य सरकार
		निजी	शुष्क	26/5बी2	100	वेल्लयन पुत्र पेरुमल
		निजी	शुष्क	26/5सी2	50	काली पुत्र वीरन
		निजी	शुष्क	26/5ई2	50	अरुमुगम पुत्र काली
		निजी	शुष्क	26/5एफ2	50	मारि पुत्र वीरन
		निजी	शुष्क	26/5जी2	50	मुरुगेशन पुत्र पालनई
		निजी	शुष्क	26/5एच2	50	मुरुगेशन पुत्र पालनई
		निजी	शुष्क	27/3बी	500	1. गाँधी पुत्र पोन्नूसामी गौंडर 2. चन्द्रन पुत्र पोन्नूसामी गौंडर
		निजी	शुष्क	28/2बी2	350	1. अरुमुगम पुत्र साद्या गौंडर 2. गांधीमथि पुत्र अरुमुगम
		निजी	शुष्क	39/1ई2	150	पेरमागौंडर पुत्र कृष्णा गौंडर
		सरकार	पोरमबोके	39/3	350	तमिलनाडू राज्य सरकार
		निजी	शुष्क	40/1बी	50	अरुलमिगू नादूपट्टी सेंद्राया पेरुमल कोइल
		सरकार	पोरमबोके	40/3	450	तमिलनाडू राज्य सरकार
		निजी	शुष्क	41/1एफ2	300	1. सादया गौंडर पुत्र अनई गौंडर 2. पोन्नूसामी पुत्र अनई गौंडर 3. चिन्नाथम्बी गौंडर पुत्र अनई गौंडर
		निजी	शुष्क	41/1जी2	100	पोन्नूसामी पुत्र अनई गौंडर
		निजी	शुष्क	41/1एच2	300	1. अनई गौंडर पुत्र चिन्नाथम्बी गौंडर 2. अल्लिमुथू पुत्र चिन्नाथम्बी गौंडर 3. कंदाम्मल पत्नी चिन्नाथम्बी गौंडर
		निजी	शुष्क	42/1बी	300	1. पलानी सामी पुत्र अरुमुगा गौंडर 2. अल्लिमुथू 3. सुब्रमणी 3. बालू पुत्र अरुमुगा गौंडर
		निजी	शुष्क	42/2बी	300	1. दास गौंडर पुत्र पेरुमल गौंडर 2. नागाम्मल पत्नी मुनुसामी 3. थिम्मासीगौंडर पुत्र रामासामी 4. दुरईसामी पुत्र कुलनदई गौंडर 5. वेकटचलम पुत्र मुनुसामी
		निजी	शुष्क	44/1ए	100	1. बाबू पुत्र बाशमियन 2. जयनूबी पत्नी दास्तगीर 3. मीरर पुत्र बाशमियन 4. सेतु पुत्र आनई गौंडर 5. कंदाम्मल पत्नी दुरईसामी

1	2	3	4	5	6	7
		निजी	शुष्क	44/2ए	600	1. कादर खान पुत्र कादर बाशा 2. कलियाम्मल पत्नी कांलियप्पा गौंडर 3. कट्टाम्मल पत्नी दुरईसामी 4. बाशा पुत्र लाल 5. बाबू पुत्र बत्तामियन 6. कादेसबी पत्नी बाबू 7. जयन्ति पत्नी देस्तागी. 8. महबूब पुत्र मुस्तफा 9. थंगावेल पुत्र सादया गौंडर 10. कावेरी गौंडर पुत्र अंगप्पा गौंडर 11. पावत्री बी पत्नी बाशामियन 12. आमीरखान पुत्र बाशामियन 13. लतीफ पुत्र बाशामियन 14. अब्बास पुत्र बाशामियन 15. नाजिर पुत्र बाशामियन 16. सेत्तु पुत्र सादया गौंडर
		निजी	शुष्क	44/3ए	1650	अरुलमिगू नादुपट्टी सेनराय पेरुमल कोइल
		निजी	शुष्क	44/4ए	200	अरुमुगम पुत्र पेरुमल गौंडर
		निजी	शुष्क	44/4बी	150	अम्मासी पुत्र रामासामी गौंडर
		निजी	शुष्क	44/4सी	600	1. रामासामी पुत्र चिन्नप्पन 2. कावेरी अम्मल पत्नी चिन्नप्पन 3. इन्द्राणी पत्नी माधप्पन 4. कुमार पुत्र माधप्पन 5. वैकटेश पुत्र माधप्पन 6. विजयलक्ष्मी पुत्री माधप्पन
		निजी	शुष्क	44/4डी	400	दुरईसामी पुत्र कुलनदई गौंडर
		निजी	शुष्क	44/4ई	350	नारायणन पुत्र गोविन्द गौंडर
		निजी	शुष्क	44/5ए1ए	200	अरुमुगम पुत्र पेरुमल गौंडर
		निजी	शुष्क	44/5ए2ए	150	अम्मासी गौंडर पुत्र रामासामी गौंडर
		निजी	शुष्क	44/5ए3ए	550	1. रामासामी पुत्र चिन्नप्पन 2. कावेरियाम्मल पत्नी चिन्नप्पन 3. इन्द्राणी पत्नी माधप्पन 4. कुमार पुत्र माधप्पन 5. वैकटेशन पुत्र माधप्पन 6. विजयलक्ष्मी पुत्री माधप्पन
		निजी	शुष्क	44/5ए10ए	300	दुरईसामी पुत्र कुलनदई गौंडर
		निजी	शुष्क	44/5ए11ए	300	नारायणन पुत्र गोविन्द गौंडर
		निजी	शुष्क	44/5बी1	500	अकबर अली पुत्र पी.एम. बाशा
		निजी	शुष्क	44/6ए	50	अकबर अली पुत्र पी.एम. बाशा
		निजी	शुष्क	45/1ए1	100	1. नंनजाम्मल पत्नी मुथूसामी पंडाराम 2. नागम्मल पुत्री मुनुसामी पंडाराम 3. नागरथिनम पुत्री मुथूसामी पंडाराम 4. सरस्वती पुत्री मुथूसामी पंडाराम
		निजी	शुष्क	45/1बी1	50	1. सरोजा पत्नी मोहनदास 2. मोहनदास पुत्र मुथूसामी पांडियन

1	2	3	4	5	6	7
		निजी निजी.	शुष्क शुष्क	49/1ए1	700	1. पी.के. गणेशन पुत्र कंदासामी गौंडर 2. राजा पुत्र कलियप्पा गौंडर 3. मादेश्वरी पत्नी राजा 4. मुथू गौंडर पुत्र पोन्ना गौंडर 5. मादियालगन पुत्र मुथू गौंडर 6. कन्नियन पुत्र कुप्पन्ना पिल्लै 7. जयवीरन (क) अरुमुगम 8. पलानिम्मल 9. रथिनाम्मल पुत्री कोलन्दा गौंडर 10. थंगावेल पुत्र परूवा पेरुमल 11. विक्टर (क) रामचंदर पुत्र मुनियांदी चेत्तियार 12. माणिकम पुत्र वीर बोयन 13. राजेश्वरी पुत्री दुरईसामी पिल्लै 14. जयवीरन पुत्र केम्बीर वीरन 15. श्रवणन पुत्र राजू 16. महेश्वरी पत्नी गांधी 17. गोविन्दराज पुत्र अरुणाचलम
		निजी	शुष्क	49/1बी1	1950	1. के.के. वेकटचलम 2. के.के. सेंगोदन पुत्र कृष्णा चेत्तियार 3. अमरावती पत्नी थंगावेल 4. कावेरी पुत्र रामासामी गौंडर 5. विजया पत्नी गणेशन
		निजी	शुष्क	50/1ए	100	शेखर पुत्र रामासामी
		निजी	शुष्क	50/1बी	100	लक्ष्मी पत्नी चिन्नप्पा गौंडर
		निजी	शुष्क	50/1सी1	150	कृष्णा गौंडर पुत्र सीदेवी
		निजी	शुष्क	50/1सी2	1400	कृष्णा गौंडर पुत्र सीदेवी
		निजी	शुष्क	50/2ए1	900	राजा पुत्र कलियप्पन
		सरकार	पोरमबोके	50/2बी	200	तमिलनाडू राज्य सरकार
		निजी	शुष्क	53/3बी2	50	मुरुगाप्पन
		निजी	शुष्क	53/4ए2	850	अनवर अली पुत्र पी.एम. बाशा
		निजी	शुष्क	53/4बी2	1150	रामेश बाबू पुत्र गुरुनाथन
		सरकार	पोरमबोके	55/3	2450	तमिलनाडू राज्य सरकार
		निजी	नम	57/1बी2	150	लक्ष्मी अम्मल पत्नी सुब्रमणी अयर
		निजी	नम	57/1सी2	4650	सीदेवी गौंडर पुत्र पलानी गौंडर
		सरकार	पोरमबोके	57/4	950	तमिलनाडू राज्य सरकार
		निजी	नम	60/1ए1ए2	750	गोपालन पुत्र रामासामी गौंडर
		निजी	नम	60/1ए2	150	1. मनोहरन पुत्र रामासामी पिल्लै 2. राजशेखरन पुत्र नतेशन पिल्लै
		निजी	नम	60/1ए1बी2	600	1. कलियाम्मल पत्नी रामासामी गौंडर 2. नटराजन पुत्र रामासामी गौंडर 3. गोपालन पुत्र रामासामी गौंडर 4. पलानीसामी पुत्र रामासामी गौंडर 5. तामरईसेलवी पत्नी महालिंगम 6. वी.ए. पलानिवेलू पुत्र अरुणाचलम पिल्लै

1	2	3	4	5	6	7
		निजी	नम	60/2बी	1150	1. सेलवन पुत्र एल्लप्पन 2. अलामेलू पत्नी सेलवन 3. तल्लईकारसी पत्नी राजेन्द्रन 4. राजेन्द्रन पुत्र पेरियान्नन 5. यूसूफ पुत्र लाल बाशा 6. अब्दुल रजाक पुत्र बी.एम बाशा 7. वीरू पुत्र पेरियान्नागौंडर 8. पनीर सेलवम पुत्र दुर्ई गुरुनाथन 9. विश्वनाथन पुत्र चक्रबानी
		सरकार	पोरमबोके	60/4	50	तमिनाडू राज्य सरकार
		निजी	शुष्क	62/1बी	3100	1. कोलनदइयाम्मल पत्नी रथिनम पिल्लै 2. आसइथम्बी पुत्र रथिनम पिल्लै 3. अंबाझागन पुत्र रथिनम पिल्लै 4. आंदल पत्नी रमेश 5. डा10 प्रकाशम पुत्र कुप्पुसामी
		निजी	शुष्क	64/1ए1	50	1. अरुमुगम पुत्र वीरन 2. सरस्वती पत्नी मुरुगेशन 3. धर्मांगिम पुत्र रामासामी
		निजी	शुष्क	64/1बी1	550	सरस्वती पत्नी मुरुगेशन
		निजी	शुष्क	64/1डी1	50	1. धर्मांगिम पुत्र रामासामी 2. माधेश्वरी पत्नी राजा
		निजी	शुष्क	64/1ई1	300	माधेश्वरी पत्नी राजा
		निजी	शुष्क	64/1एफ1	150	बालन पुत्र कृष्णन
		निजी	शुष्क	64/1जी1	350	चिन्नासामी पुत्र कालिसेवीगौंडर
		निजी	शुष्क	64/1एच1	150	1. मुथू पुत्र मुनियन 2. राजी पुत्र अरुमुगम 3. ईश्वरन पुत्र अरुमुगम
		निजी	शुष्क	64/1आई1	400	नटराजन पुत्र अरुमुगम पिल्लै
		सरकार	पोरमबोके	65/1	1150	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	69/1	15	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई	---	69/2ए	252	क्षेत्रीय प्रबन्धक, कृषि सेवा संगम
		सरकार	पोरमबोके	69/4	27.5	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	69/5	8	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	69/6	5.5	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	69/7	5.5	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	69/8	6	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई	---	69/9	16	शनमुगम पुत्र माणिकम पिल्लै
		रैयत मनई	---	69/10	9.5	1. मुरुगेशन पुत्र पोन्नुसामी 2. मिनल गोपीनाथन अभिभावक माता अमुधा
		सरकार	पोरमबोके	69/11	222	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	70/2	1300	तमिलनाडू राज्य सरकार
		निजी	शुष्क	71/1ए1	500	1. पुनिथावल्ली पत्नी मादेश्वरन 2. मादेश्वरन 3. राजेन्द्रन पुत्र पेरियान्नन 4. श्री सेलवामागल फाइनैन्स, टी.कोड

1	2	3	4	5	6	7
		निजी	शुष्क	71/1बी1	100	1. मादियालगन पुत्र मुथू गौंडर 2. टी.एम जयलक्ष्मी पत्नी मादियालगन
		निजी	शुष्क	71/1सी1	100	1. कंदासामी पुत्र पलानी गौंडर 2. लक्ष्मी पत्नी कंदासामी
		निजी	शुष्क	71/3ए1	50	सीदवई गौंडर पुत्र पलानियप्पा गौंडर
		निजी	शुष्क	71/3बी1ए	50	1. मादाम्मल पत्नी थंगावेल 2. पलानियाम्मल पत्नी कमलेशन
		निजी	शुष्क	71/3बी4ए	50	1. सीदवई गौंडर पुत्र पलानियप्पा गौंडर 2. सरोज पत्नी वीरसामी
		निजी	नम	72/1ए1	150	1. सरोजा पत्नी गोविन्दन 2. गोविन्दन पुत्र वीरसामी बोयन 3. अरुमुगन पुत्र वीरसामी बोयन
		निजी	नम	72/1बी1	150	1. पोन्नप्पन पुत्र वीरसामी बोयन 2. रंगनाथन पुत्र वीरसामी बोयन
		निजी	नम	72/1सी1	600	1. चेन्नाथम्बी पुत्र कालीसेवी 2. लक्ष्मी पत्नी चिन्नाथम्बी 3. अवयस्क कालइमणी अभिभावक माता लक्ष्मी 4. रंगनाथन पुत्र वीरसामी बोयन 5. पलानी सामी पुत्र अरुमुगा बोयन 6. मुरुगन 7. इदुम्बन 8. मादइयन पुत्र मारियप्पा गौंडर 9. अय्यानर पुत्र चिन्नाथम्बी
		निजी	नम	72/1डी1	300	पोन्नप्पन पुत्र वीरसामी बोयन
		निजी	नम	72/1ई1ए	300	रामासामी पुत्र मारियप्पा पिल्लै
		निजी	नम	72/1जी1	350	1. रामासामी पुत्र मारी पिल्लै 2. सुब्रमणी पुत्र पलानी गौंडर
		निजी	नम	72/1एच1	300	पोन्नप्पन पुत्र वीरसामी बोयन
		निजी	नम	72/1आई1	450	जयलक्ष्मी पुत्र मादियालगन
		निजी	शुष्क	72/2ए	300	मुथू गौंडर पुत्र पोन्ना गौंडर
		रैयत मनई	---	218/1	17.5	मुरुगेशन पुत्र पोन्नुसामी अवयस्क गोपीनाथन अभिभावक माता अमुधा
		रैयत मनई	---	218/2	27	बी.एम.अब्दुल रजाक
		रैयत मनई	---	218/3	30.5	दुरईसामी
		रैयत मनई	---	218/4	42	सीदेवी गौंडर पुत्र पलानी गौंडर
		रैयत मनई	---	218/5	34	कादिस्वेलु पुत्र सुबाराय पिल्लै
		सरकार	पोरमबोके	218/6	42	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	218/7	70.5	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	218/8	72.5	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई	---	218/10ए	10.5	नागराज पुत्र पलानी गौंडर
		रैयत मनई	---	218/11	43.5	1. वल्लिगाम्मल पत्नी पेरुमल 2. कंदासामी पुत्र पेरुमल 3. रामासामी पुत्र पेरुमल
		रैयत मनई	---	218/12	84	सुब्रमणी पुत्र पलानी गौंडर
		रैयत मनई	---	218/13	60.5	गांधी पुत्र पोन्नुसामी
		सरकार	पोरमबोके	218/17	203	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	219/1	40	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	219/2	32	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई	---	219/3	50	नीलाम्बल पत्नी सेलवाकुमार

1	2	3	4	5	6	7
		रैयत मनई	---	219/4	62.5	मुरुगेशन पुत्र सिद्धा गौंडर
		रैयत मनई	---	219/5	60	मुनियन पुत्र सिद्धा गौंडर
		सरकार	पोरमबोके	219/6	35	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई	---	219/7	18	गोविन्दन पुत्र सिद्धा गौंडर
		रैयत मनई	---	219/8	16	रामू पुत्र सिद्धा गौंडर
		रैयत मनई	---	219/9	15	रामू पुत्र सिद्धा गौंडर
		रैयत मनई	---	219/10	13.5	गणेशन पुत्र सिद्धा गौंडर
		रैयत मनई	---	219/11ए	26	वेंकटचलम पुत्र सिद्धा गौंडर
		रैयत मनई	---	219/12	28.5	शेखर पुत्र कुलनदई गौंडर
		रैयत मनई	---	219/13	46.5	कुलनदई गौंडर पुत्र रामा गौंडर
		सरकार	पोरमबोके	220/1	592.5	रामू पुत्र सिद्धा गौंडर
		रैयत मनई	---	220/2	63	जयलक्ष्मी पुत्र मादियालगन
		रैयत मनई	---	220/3	42	मादियालगन पुत्र मुधू गौंडर
		रैयत मनई	---	220/4	39	पलानियप्पन पुत्र सीदवी गौंडर
		रैयत मनई	---	220/5	138.5	सुब्रमणी पुत्र माणिकम
		रैयत मनई	---	220/6	67	पलानियप्पन पुत्र सीदवी गौंडर
		रैयत मनई	---	220/7	44.5	अरुमुगम पुत्र पेरुमल
		रैयत मनई	---	220/8	13.5	पेरुमल पुत्र कुलनदई गौंडर
2	दासगासमुद्रम	निजी	शुष्क	6/1बी	550	1. इंदिरानी पत्नी माधप्पन 2. कुमार पुत्र माधप्पन 3. वेंकटेशन पुत्र माधप्पन 4. रामासामी पुत्र चिन्नप्पन 5. वैयापुरी पुत्र कृष्णा गौंडर
		निजी	शुष्क	6/3बी	700	वैयापुरी पुत्र कृष्णा गौंडर
		निजी	शुष्क	6/4ए2	700	मधू पुत्र पेरुमल
		निजी	शुष्क	6/4सी2	500	मनुसामी पुत्र चिन्नप्पागौंडर
		निजी	शुष्क	7/1सी2	650	रामलिंगम पुत्र अंगप्पन
		निजी	शुष्क	7/1डी2	800	अंगामुधू पुत्र अंगप्पन
		निजी	शुष्क	7/2ए2	1050	1. पेरुमल पुत्र मुधन 2. वेंकटचलम पुत्र रामासामी 3. गोविन्दन पुत्र रामासामी 4. कार्यपालक निदेशक डॉ० एलिजाबेथ जोवान्स मेडिकल ट्रस्ट
		निजी	शुष्क	7/2बी2	200	1. मुधू पुत्र नाल्लन 2. बालसुब्रमणियन पुत्र सिद्धन
		निजी	शुष्क	7/3ए2	1750	कार्यपालक निदेशक डॉ० एलिजाबेथ जोवान्स मेडिकल ट्रस्ट
		निजी	शुष्क	7/3बी2	450	लीलावती पत्नी नतेशन
		निजी	शुष्क	8/8बी2	850	1. गोविन्दन पुत्र रामासामी गौंडर 2. वेंकटचलम पुत्र रामासामी गौंडर 3. रामू पुत्र रामासामी गौंडर 4. रुक्मणी पत्नी गोपालकृष्णन
		निजी	शुष्क	8/9बी2	900	लक्ष्मियाम्मल पत्नी कृष्णन

1	2	3	4	5	6	7
		निजी	शुष्क	9/4ए2	150	1. गोविन्दन पुत्र रामासामी गौंडर 2. वेकटचलम पुत्र रामासामी गौंडर 3. रामू पुत्र रामासामी गौंडर 4. रूकमणी पत्नी गोपालकृष्णन
		निजी	शुष्क	9/5ए2	350	गोविन्दसामी पुत्र कावेरी गौंडर
		निजी	शुष्क	9/8ए2	800	1. गोविन्दसामी पुत्र कावेरी गौंडर 2. रूकमणी पत्नी गोविन्दसामी
		निजी	शुष्क	9/8बी	100	सेवीगौंडर पुत्र अरुमुगम
		निजी	शुष्क	9/8सी	100	गोविन्दसामी पुत्र अरुमुगम
		निजी	शुष्क	9/9ए	100	गोविन्दसामी पुत्र अरुमुगम
		निजी	शुष्क	9/9बी2	81	जयरमन पुत्र कंदासामी
		निजी	शुष्क	9/9सी2	220	आयुक्त, पंचायत ग्रुनियन, कादयमपट्टी
		निजी	शुष्क	9/9डी	100	पेरुमल पुत्र कोलनदागौंडर
		निजी	शुष्क	9/9ई2	300	जयरमन पुत्र कंदासामी
		निजी	शुष्क	9/9एफ	800	1. माणिकम पुत्र कंदासामी 2. गुनशेखरन पुत्र माणिकम
		निजी	शुष्क	9/12ए2	276	गोविन्दसामी पुत्र कावेरीगौंडर
		सरकार	पोरमबोके	9/14	300	अरुलमेगू पेरुमल कोइल
		सरकार	पोरमबोके	9/15	50	तमिलनाडु राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	9/16	1250	तमिलनाडु राज्य सरकार
		निजी	शुष्क	14/2बी2	1800	नतेशन पुत्र कुंजू मार्फत कावेरी गौंडर
		निजी	शुष्क	15/2	4700	1. दसस्थन पुत्र सेंद्रायगौंडर 2. गोविन्दसामी पुत्र सेंद्रायगौंडर 3. रामर पुत्र सेंद्रायगौंडर 4. रामलिंगम पुत्र सेंद्रायगौंडर 5. माणिकम पुत्र पलानियप्पा गौंडर 6. श्रीनिवासन पुत्र रामचन्द्रन 7. इन्द्राणी पत्नी बालकृष्णन 8. वेकटचलम पुत्र अरुमुगम जी राजलिंगम पुत्र अरुमुगम
		निजी	शुष्क	22/1ए	1300	अकबरअली पुत्र बाशासाहिफ
		निजी	शुष्क	22/2ए	200	1. नागाम्मल पत्नी शनमुगम 2. नागरथिनम पत्नी धर्मलिंगम 3. सरस्वती पत्नी गोपाल
		निजी	शुष्क	22/2बी1	750	मोहनदास पुत्र मुथुसामीपंडाराम
		निजी	शुष्क	22/2सी1	600	सदाशिवम पुत्र मुथुसामीपंडाराम
		निजी	शुष्क	22/2डी1	150	1. गणेशन पुत्र मुथूसामी 2. मोहनदास पुत्र मुथूसामी 3. ननचाम्मल पत्नी मुथूसामीपंडाराम 4. सदाशिवम पत्नी मुथूसामीपंडाराम
		निजी	शुष्क	22/2डी3	50	1. गणेशन पुत्र मुथूसामी 2. मोहनदास पुत्र मुथूसामी 3. ननचाम्मल पत्नी मुथूसामीपंडाराम 4. सदाशिवम पत्नी मुथूसामीपंडाराम
		निजी	शुष्क	22/2ई1	350	1. गणेशन पुत्र मुथूसामीपंडाराम 2. इन्द्राणी पत्नी गणेशन

1	2	3	4	5	6	7
		निजी	शुष्क	22/2एफ1	250	मोहन दास पुत्र मुथूसामीपंडाराम
		निजी	शुष्क	22/2जी1	250	सदाशिवम पुत्र मुथूसामीपंडाराम
		निजी	शुष्क	22/2एच1	600	गणेशन पुत्र मुथूसामीपंडाराम
		सरकार	पोरमबोके	23/1	200	तमिलनाडू राज्य सरकार
		निजी	शुष्क	23/2ए1	700	रविकुमार पुत्र पाचियप्पन
		निजी	शुष्क	23/2बी1	850	रविकुमार पुत्र पाचियप्पन
		निजी	शुष्क	23/2सी1ए	250	रविकुमार पुत्र पाचियप्पन
		निजी	शुष्क	25/1ए1	150	मारियाम्मल पत्नी सैत्तु
		निजी	शुष्क	25/1बी1	50	1. माधयन पुत्र पेरियाकावेरी 2. चिन्नाकावेरी पुत्र मुरुगन
		निजी	शुष्क	25/2ए	550	पेरुमलपान्नी पुत्र मारपान्नी
		निजी	शुष्क	25/3ए	800	1. पेरुमलपान्नी पुत्र मारपान्नी
		निजी	शुष्क	26/2ए1	200	1. रामयीआम्मल पत्नी दासगौंडर 2. कृष्णागौंडर 3. माणिकम पुत्र दासगौंडर 4. राजावेलू पुत्र दासगौंडर 5. नल्लूगौंडर पुत्र कौंदप्पागौंडर 6. मुरुगेशन पुत्र कौंदप्पागौंडर 7. रामर पुत्र दासगौंडर
		निजी	नम	26/2बी1	350	1. रामयीआम्मल पत्नी दासगौंडर 2. कृष्णागौंडर 3. माणिकम पुत्र दासगौंडर 4. राजावेलू पुत्र दासगौंडर 5. रामर पुत्र दासगौंडर
		निजी	नम	26/2बी3	2000	1. रामयीआम्मल पत्नी दासगौंडर 2. रामर पुत्र दासगौंडर 3. कृष्णन पुत्र दासगौंडर 4. माणिकम पुत्र दासगौंडर 5. राजावेलू पुत्र दासगौंडर
		निजी	शुष्क	53/1बी1ए	74	कृष्णासामीअय्यंगर पुत्र रामासामीअय्यंगर
		निजी	शुष्क	53/1बी3ए	500	रामगौंडर पुत्र सैगोदागौंडर
		निजी	शुष्क	53/4बी1ए	170	गोविन्दगौंडर पुत्र पेरियापंचलई
		निजी	शुष्क	53/4बी2ए	100	कोलंदागौंडर पुत्र पेरियापंचलई
		निजी	शुष्क	53/4बी3ए	150	1. गोविन्दसामी पुत्र वैकटचलम 2. सामवेल पुत्र वैकटचलम 3. नटराजन पुत्र वैकटचलम
		निजी	शुष्क	53/4बी4ए	100	1. नारायणन पुत्र पेरियापंचलई 2. थंगराज पुत्र नारायणन
		निजी	शुष्क	53/6बी1ए	550	माथलईमुथू पुत्र चिन्नापड्यागौंडर
		निजी	शुष्क	53/7बी1ए	400	गोविन्दगौंडर पुत्र पेरियापंचली
		निजी	शुष्क	53/8बी1	450	पेरुमल पुत्र चिन्नाप्यागौंडर
		निजी	शुष्क	55/1ए2	350	मल्लुगौंडर पुत्र गौंदप्पागौंडर
		निजी	शुष्क	55/1बी2	200	रामासामीगौंडर पुत्र पन्नादिगौंडर
		निजी	शुष्क	55/1सी2	450	गौंदप्पन पुत्र लक्ष्मनगौंडर
		निजी	शुष्क	55/1डी2	200	मुरुगेशन पुत्र गौंदप्पन
		निजी	शुष्क	55/1ई2	400	मल्लुगौंडर पुत्र गौंदप्पागौंडर
		निजी	शुष्क	55/1जी2	100	रामासामीगौंडर पुत्र पन्नादिगौंडर
		निजी	शुष्क	55/1 आई 2	200	गौंदप्पन पुत्र लक्ष्मनगौंडर

1	2	3	4	5	6	7
		निजी	शुष्क	55/1जे2	187	मल्लुगौंडर पुत्र गौंदप्पागौंडर
		निजी	शुष्क	55/1एन2	100	1. शनमुगम पुत्र गौंदप्पन
		निजी	शुष्क	55/1 0 2	100	1. मुरुगेशन पुत्र गौंदप्पन 2. अरुमुगम पुत्र गौंदप्पन 3. शनमुगम पुत्र गौंदप्पन 4. नल्लुगौंडर पुत्र गौंदप्पन 5. रंगासामी पुत्र पन्नादिगौंडर 6. गौंदप्पन पुत्र लक्ष्मनन 7. थंगम पत्नी पलानीसामी
		सरकार	पोरम्बोके	55/3	1700	तमिलनाडू राज्य सरकार
		निजी	शुष्क	56/1ए2	500	थंगाराज पुत्र गोविन्दसामी
		निजी	शुष्क	56/1बी2	1800	थंगाराज पुत्र गोविन्दसामी
		निजी	शुष्क	56/1सी2	50	1. चन्द्रशेखरन पुत्र गोविन्दसामी 2. थंगाराज पुत्र गोविन्दसामी
		निजी	शुष्क	56/2बी	2350	बक्कियम पत्नी राजूचेट्टी
		निजी	शुष्क	57/1ए2	1300	इदुप्पागौंडर पुत्र मुथूगौंडर
		निजी	शुष्क	57/1बी2	1100	पलानीगौंडर पुत्र मुथूगौंडर
		निजी	शुष्क	57/2ए2	250	पलानीगौंडर पुत्र मुथूगौंडर
		निजी	शुष्क	57/2बी2	50	1. पलानीगौंडर पुत्र मुथूगौंडर 2. लक्ष्मणन पुत्र राजगोपालन
		निजी	शुष्क	57/2सी2	750	1. धनकोडी पुत्र लक्ष्मणन 2. सरोजा पत्नी माथू
		निजी	शुष्क	57/3बी	350	1. धनकोडी पुत्र लक्ष्मणन 2. संबू पत्नी दुर्ईसामी
		निजी	शुष्क	60/1ए2	700	अर्जुनन पुत्र वैकटचलम
		निजी	नम	63/1ए	850	शनमुगम पुत्र गौंदप्पन
		निजी	नम	63/5ए	25	गौंदप्पन पुत्र रामासामी 2. गोविन्दन पुत्र गौंदप्पन
		निजी	नम	63/6ए	21	माणिकम पुत्र रामासामी
		निजी	नम	63/7	50	अरुमुगम पुत्र रामासामी
		निजी	नम	63/8	50	गोविन्दन पुत्र रामासामी
		निजी	नम	63/9	100	गोविन्दन पुत्र रामासामी
		निजी	नम	63/10	200	गोविन्दन पुत्र रामासामी
		निजी	नम	63/11	250	1. गौंदप्पन पुत्र रामासामी 2. अरुमुगम पुत्र रामासामी
		निजी	नम	63/12ए	100	1. गोविन्दन पुत्र रामासामीगौंडर 2. पलानी पुत्र रामासामीगौंडर
		निजी	नम	63/13ए	600	1. गौंदप्पन पुत्र रामासामीगौंडर 2. गोविन्दसामी पुत्र रामासामीगौंडर
		निजी	नम	63/14ए	600	शनमुगम पुत्र गौंदप्पन
		निजी	नम	63/15ए	200	माणिकम पुत्र रामासामी
		निजी	नम	63/16ए	200	अरुमुगम पुत्र रामासामी
		निजी	नम	63/17ए	150	पलानीसामी पुत्र रामासामी
		निजी	नम	63/18ए	150	गोविन्दन पुत्र रामासामी
		निजी	शुष्क	65/1ए1	333	1. सादयागौंडर पुत्र अनईगौंडर 2. चिन्नाथम्बी पुत्र अनईगौंडर 3. पोन्नुसामी पुत्र अन्नईगौंडर

1	2	3	4	5	6	7
		निजी	शुष्क	65/1सी1	400	चिन्नाथम्बी पुत्र अनईगौंडर
		निजी	शुष्क	65/1ई1	450	पोन्नुसामी पुत्र अनईगौंडर
		निजी	शुष्क	65/1एफ1	650	सादयागौंडर पुत्र अनईगौंडर
		निजी	शुष्क	65/2ए1	500	चिन्नाथम्बी पुत्र अनईगौंडर
		निजी	शुष्क	65/2बी1	1000	पोन्नुसामी पुत्र अनईगौंडर
		निजी	शुष्क	65/2सी1	150	मारप्पागौंडर पुत्र चेल्लप्पागौंडर
		रैयत मनई		82/1	168	वेल्लइयन पुत्र मुथू
		रैयत मनई		82/2ए	64	मुनियन पुत्र मुथू
		सरकार	पोरमबोके	82/5	544	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	83/1	675	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई		83/2ए	93.5	सौंदरराजन पुत्र सीरंगन
		रैयत मनई		83/7ए	4	अन्नामलई पुत्र वीरन
		सरकार	पोरमबोके	83/8	78	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई		83/9ए	139.5	मारक्कल पत्नी मारन
		रैयत मनई		83/17ए	101.5	पेरुमल पुत्र सिद्धन
		रैयत मनई		83/18	132.5	सी बालसुब्रमणियम
		रैयत मनई		83/19ए	89	मणी पुत्र रमन
		रैयत मनई		83/20ए	1	पाप्पा पत्नी बालसुब्रमणियम
		सरकार	पोरमबोके	83/25	17	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई		85/1	160.5	रथिनासामी पुत्र गोविन्दगौंडर
		सरकार	पोरमबोके	85/2	64.5	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई		85/3	86.5	शिवकुमार पुत्र पेरुमल
		रैयत मनई		85/4	114	सुब्रमणी पुत्र पेरुमलगौंडर
		रैयत मनई		85/5ए	51.5	1. लक्ष्मी पत्नी कूदन 2. चेल्लाम्मल पुत्री कोदन
		रैयत मनई		85/7ए	7.5	पाप्पा पत्नी कदासामी
		रैयत मनई		85/8ए	133.5	कृष्णागौंडर पुत्र मन्नागौंडर
		रैयत मनई		85/9ए	133	वैकटु पुत्र रामासामी
		रैयत मनई		85/11ए	162.5	माणिकम पुत्र कदासामी
		रैयत मनई		85/12	107.5	सलाम्मल पत्नी जयरमन
		सरकार	पोरमबोके	85/13	71	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	85/15	60	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई		86/1ए	23	थंगावेल पुत्र पेरुमल
		सरकार	पोरमबोके	86/25	1.5	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई		90/1	76	गोविन्दाम्मल पत्नी गोपाल
		सरकार	पोरमबोके	90/2	81	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	90/3	83	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई		90/4ए	15.5	माधइयन पुत्र थंबियप्पन
		रैयत मनई		90/5ए	159.5	जोसफ पुत्र देवरसिरवाथम
		सरकार	पोरमबोके	90/6	36	तमिलनाडू राज्य सरकार
		सरकार	पोरमबोके	90/7	132	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई		90/11ए	77	रामासामी पुत्र मुथूगौंडर
		रैयत मनई		90/12	45	माधियन पुत्र मुथूगौंडर
		रैयत मनई		90/13	45	रामासामी पुत्र गोविन्दगौंडर
		रैयत मनई		90/14	47.5	लक्ष्मी पत्नी रामकृष्णन

1	2	3	4	5	6	7
		सरकार	पोरमबोके	90/15	62.5	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई		90/17ए	139.5	रामर पुत्र कुप्पूसामीगौंडर
		सरकार	पोरमबोके	90/18	156	तमिलनाडू राज्य सरकार
		रैयत मनई		90/19ए	47	चिन्नाथयी पत्नी नारायणन
		सरकार		90/20ए	101.5	करत्तूरी पत्नी रंगनाथन
		सरकार	पोरमबोके	90/21	108.5	(रिक्त विद्यालय)
		सरकार	पोरमबोके	91/1	204	(रिक्त विद्यालय)
		सरकार	पोरमबोके	91/3	165.5	(रिक्त विद्यालय)
		रैयत मनई		91/4ए	60	पेरियासामी पुत्र मुथूलिगम
		रैयत मनई		91/5ए	27.5	कंदासामी आसारी पुत्र मुथूलिगम
		रैयत मनई		91/6ए	27.5	पलानियम्मल पत्नी वेणुगोपाल
		रैयत मनई		91/7ए	34.5	गोविन्दराज पुत्र गोविन्दन
		सरकार	पोरमबोके	91/8	67.5	पाथ

[सं. एनएचएआई/15/2003/एलए/आरआर-एए]

ए.वी. सिंह, सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2004

**S.O.13 (E).—**Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O. 760(E), dated the 4th July, 2003, issued under sub-section (i) of section 3 A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of building (four-laning), maintenance, management and operation of the National Highways No.7 on the land stretch from Km. 163.400 to 199.200 (Bangalore- Salem-Madurai Section) in the State of Tamil Nadu;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto are to be declared for the aforesaid purpose;

And further, on the publication of this notification in the official gazette the lands specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from of encumbrances under sub-section (2) of section 3D of the said Act.

## SCHEDULE

District : Salem

Taluk : Omalur

S. No.	Name of the Village	Type of land	Nature of land	Survey number	Area Square metre	Name of the land/owner/Intrested persons
1	2	3	4	5	6	7
1	Deevattipatti	Government	Poramboke	13/2	350	State Government of Tamil Nadu
		Private	Dry	26/5B2	100	Vellaiyan S/o. Permal
		Private	Dry	26/5C2	50	Kali S/o. Veeran
		Private	Dry	26/5E2	50	Arumugam S/o. Kali
		Private	Dry	26/5F2	50	Mari S/o. Veeran
		Private	Dry	26/5G2	50	Murugesan S/o. Palanai
		Private	Dry	26/5H2	50	Murugesan S/o. Palanai
		Private	Dry	27/3B	500	1. Gandhi S/o. Ponnusamy gounder. 2. Chandran S/o. Ponnusamy gounder
		Private	Dry	28/2B2	350	1. Arumugam S/o. Sadya gounder 2. Gandimathi S/o. Arumugam
		Private	Dry	39/1E2	150	Peramagounder S/o. Krishna gounder
		Government	Poramboke	39/3	350	State Government of Tamil Nadu
		Private	Dry	40/1B	50	Arulmigu Nadupatti Sendraya Perumal Koil
		Government	Poramboke	40/3	450	State Government of Tamil Nadu
		Private	Dry	41/1F2	300	1. Sadya gounder S/o. Anai gounder 2. Ponnusamy S/o. Anai gounder. 3. Chinnathambi gounder S/o. Anai goounder.
		Private	Dry	41/1G2	100	Ponnusamy S/o. Anai gounder
		Private	Dry	41/1H2	300	1. Anai gounder S/o. Chinnathambi gounder 2. Allimuthu S/o. Chinnathambi gounder 3. Kandammal W/o. Chinnathambi gounder.
		Private	Dry	42/1B	300	1. Palani samy S/o. Arumuga gounder 2. Allimuthu 3. Subramani 4. Balu S/o. Arumuga gounder

1	2	3	4	5	6	7
		Private	Dry	42/2B	300	1. Dasa gounder S/o. Perumal gounder 2. Nagammal W/o. Munusamy 3. Thimmasigounder S/o. Ramasamy 4. Duraisamy S/o. Kulandai gounder 5. Venkatachalam S/o. Munusamy
		Private	Dry	44/1A	100	1. Babu S/o. Bashamiyan 2. Jainoobee W/o. Dastageer 3. Meerar S/o. Bashamiyan 4. Settu S/o. Aanai gounder 5. Kandammal W/o. Duraisamy
		Private	Dry	44/2A	600	1. Kader khan S/o. Kader basha 2. Kaliammal W/o. Kaliappa gounder 3. Kattammal W/o. Duraisamy 4. Basha S/o. Lal 5. Babu S/o. Batchamiyan 6. Kadesbee W/o. Babu 7. Jayanthi W/o. Desthagee 8. Mahboob S/o. Musthaffa 9. Thangavel S/o. Sadaya gounder 10. Kaveri gounder S/o. Angappa gounder 11. Pawtri bee W/o. Bashamiyan 12. Aameerkhan S/o. Bashamiyan 13. Latif S/o. Bashamiyan 14. Abbas S/o. Bashamiyan 15. Nazir S/o. Bashamiyan 16. Settu S/o. Sadaya gounder.
		Private	Dry	44/3A	1650	Arulmigu Nadupatti Senraya Perumal Koil
		Private	Dry	44/4A	200	Arumugam S/o. Perumal gounder
		Private	Dry	44/4B	150	Ammasi S/o. Ramasamy gounder

1	2	3	4	5	6	7
		Private	Dry	44/4C	600	1. Ramasamy S/o. Chinnappan 2. Kaveri ammal W/o. Chinnappan 3. Indrani W/o. Madhappan 4. Kumar S/o. Madhappan 5. Venkatesh S/o. Madhappan 6. Vijayalakshmi D/o. Madappan
		Private	Dry	44/4D	400	Duraisamy S/o. Kulandai gounder
		Private	Dry	44/4E	350	Narayanan S/o. Govinda gounder
		Private	Dry	44/5A1A	200	Arumugam S/o. Perumal gounder
		Private	Dry	44/5A2A	150	Ammasi gounder S/o. Ramasamy gounder
		Private	Dry	44/5A3A	550	1. Ramasamy S/o. Chinnapaiyan 2. Kaveriammal W/o. Chinnappan 3. Indrani W/o. Madhappan 4. Kumar S/o. Madhappan 5. Venkatesan S/o. Madhappan 6. Vijayalakshmi D/o. Madappan
		Private	Dry	44/5A10A	300	Duraisamy S/o. Kulandai gounder
		Private	Dry	44/5A11A	300	Narayanan S/o. Govinda gounder
		Private	Dry	44/5B1	500	Akbar ali S/o. P.M. Basha
		Private	Dry	44/6A	50	Akbar ali S/o. P.M. Basha
		Private	Dry	45/1A1	100	1. Nanjammal W/o. Muthusamy pandaram 2. Nagammal D/o. Munusamy pandaram 3. Nagarathinam D/o. Muthusamy pandaram 4. Saraswathi D/o. Muthusamy pandaram
		Private	Dry	45/1B1	50	1. Saroja W/o. Mohandass 2. Mohandass S/o. Muthusamy pandian.

1	2	3	4	5	6	7
		Private	Dry	49/1A1	700	1. P.K.Ganesan S/o. Kandasamy gounder 2. Raja S/o. Kaliappa gounder 3. Madeswari W/o. Raja 4. Muthu gounder S/o. Ponna gounder 5. Madiyalagan S/o. Muthu gounder 6. Kannian S/o. Kuppanna pillai 7. Jayaveeran (a) Arumugam 8. Palanimmal 9. Rathinamal D/o. Kolanda gounder 10. Thangavel S/o. Paruva perumal 11. Victor (a) Ramachandar S/o. Muniyandy chettiar 12. Manikam S/o. Veera boyan 13. Rajeswari D/o. Duraisamy pillai 14. Jayaveeran S/o. Kembeer veeran 15. Saravanan S/o. Baiu 16. Maheswari W/o. Gandhi 17. Govindaraj S/o. Arunachalam.
		Private	Dry	49/1B1	1950	1. K.K.Venkatachalam 2. K.K.Sengodan S/o. Krishna chettiar 3. Amaravathi W/o. Thangavel 4. Kaveri S/o. Ramasamy gounder 5. Vijaya W/o. Ganesan
		Private	Dry	50/1A	100	Sekar S/o. Ramasamy
		Private	Dry	50/1B	100	Lakshmi W/o. Chinnappa gounder
		Private	Dry	50/1C1	150	Krishna gounder S/o. Seedevi gounder
		Private	Dry	50/1C2	1400	Krishna gounder S/o. Seedevi gounder
		Private	Dry	50/2A1	900	Raja S/o. Kaliappan
		Government	Poramboke	50/2B	200	State Government of Tamil Nadu
		Private	Dry	53/3B2	50	Murugappan
		Private	Dry	53/4A2	850	Anwar ali S/o. P.M.Basha
		Private	Dry	53/4B2	1150	Rames babu S/o. Gurunathan
		Government	Poramboke	55/3	2450	State Government of Tamil Nadu
		Private	Wet	57/1B2	150	Lakshmi ammal W/o. Subramani Iyer.
		Private	Wet	57/1C2	4650	Seedvi gounder S/o. Palani gounder.

1	2	3	4	5	6	7
		Government	Poramboke	57/4	950	State Government of Tamil Nadu
		Private	Wet	60/1A1A2	750	Gopalan S/o. Ramasamy gounder
		Private	Wet	60/1A2	150	1. Manoharan S/o. Ramasamy pillai 2. Rajasekaran S/o. Natesan pillai.
		Private	Wet	60/1A1B2	600	1. Kaliammal W/o. Ramasamy gounder 2. Natarajan S/o. Ramasamy gounder 3. Gopalan S/o. Ramasamy gounder 4. Palanisamy S/o. Ramasamy gounder 5. Tamaraiselvi W/o. Mahalingam 6. V.A.Palanivelu S/o. Arunachalam pillai.
		Private	Wet	60/2B	1150	1. Selvan S/o. Ellappan 2. Alamelu W/o. Selvan 3. Tallaikarasi W/o. Rajendran 4. Rajendran S/o. Periannan 5. Yousuf S/o. Lal basha 6. Abdul rajaaq S/o. B.M.Basha 7. Veru S/o. Periyannagounder 8. Paneer selvam S/o. Dūrai gurunathan 9. Viswanathan S/o. Chakrabani.
		Government	Poramboke	60/4	50	State Government of Tamil Nadu
		Private	Dry	62/1B	3100	1. Kolandaimmal W/o. Rathinam pillai 2. Asaithambi S/o. Rathinam pillai 3. Anbazhagan S/o. Rathinam pillai 4. Andal W/o. Ramesh 5. Dr.Prakasam S/o. Kuppusamy.
		Private	Dry	64/1A1	50	1. Arumugam S/o. Veeran 2. Saraswathi W/o. Murugesan 3. Dharmalingam S/o. Ramasamy.
		Private	Dry	64/1B1	550	Saraswathi W/o. Murugesan
		Private	Dry	64/1D1	50	1. Dharmalingam S/o. Ramasamy 2. Madheswari W/o. Raja.

1	2	3	4	5	6	7
		Private	Dry	64/1E1	300	Madheswari W/o. Raja.
		Private	Dry	64/1F1	150	Balan S/o. Krishnan
		Private	Dry	64/1G1	350	Chinnasamy S/o. Kalisevigounder
		Private	Dry	64/1H1	150	1. Muthu S/o. Muniyan 2. Raji S/o. Arumugam 3. Eswaran S/o. Arumugam
		Private	Dry	64/1I1	400	Natarajan S/o. Arumugam pillai.
		Government	Poramboke	65/1	1150	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	69/1	15	State Government of Tamil Nadu
		Ryot-manai	•	69/2A	252	Regional Manager, Agricultural seva sangam.
		Government	Poramboke	69/4	27.5	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	69/5	8	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	69/6	5.5	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	69/7	5.5	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	69/8	6	State Government of Tamil Nadu
		Ryot-manai	---	69/9	16	Shanmugam S/o. Manickam pillai
		Ryot-manai	---	69/10	9.5	1. Murugesan S/o. Ponnusamy 2. Minal gopinathan guarden Mother Amudha.
		Government	Poramboke	69/11	222	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	70/2	1300	State Government of Tamil Nadu
		Private	Dry	71/1A1	500	1. Punithavalli W/o. Madeswaran 2. Madeswaran 3. Rajendran S/o. Periannan 4. Sri selvamagal finance, T.code.
		Private	Dry	71/1B1	100	1. Madiyalagan S/o. Muthu gounder 2. T.M.Jayalakshmi W/o. Madiyalagan
		Private	Dry	71/1C1	100	1. Kandasamy S/o. Palani gounder 2. Lakshmi W/o. Kandasamy
		Private	Dry	71/3A1	50	Seedvei gounder S/o. Palaniyappa gounder.

1	2	3	4	5	6	7
		Private	Dry	71/3B1A	50	1. Madammal W/o. Thangavel 2. Palanimmal W/o. Kamalesan.
		Private	Dry	71/3B4A	50	1. Seedeivi gounder S/o. Palaniyappa gounder 2. Saroja W/o. Veerasamy.
		Private	Wet	72/1A1	150	1. Saroja W/o. Govindan 2. Govindan S/o. Veerasamy Bouan 3. Arumugan S/o. Veerasamy Boyan.
		Private	Wet	72/1B1	150	1. Ponnappan S/o. Veerasamy boyan 2. Rangaanathan S/o. Veerasamy boyan.
		Private	Wet	72/1C1	600	1. Chennathambi S/o. Kalisevi 2. Lakshmi W/o. Chinnathambi 3. Minor Kalaimani guardian mother lakshmi 4. Ranganthan S/o. Veerasamy boyan 5. Palani samy S/o. Arumuga boyan 6. Murugan 7. Idumban 8. Madaiyan S/o. Mariappa gounder 9. Ayyanar S/o. Chinathambi.
		Private	Wet	72/1D1	300	Ponnappan S/o. Veerasamy boyan.
		Private	Wet	72/1E1A	300	Ramasamy S/o. Mariappa pillai.
		Private	Wet	72/1G1	350	1. Ramasamy S/o. Mari pillai 2. Subramani S/o. Palani gounder.
		Private	Wet	72/1H1	300	Ponnappan S/o. Veerasamy boyan.
		Private	Wet	72/1I1	450	Jayalakshmi S/o. Madiyalagan.
		Private	Dry	72/2A	300	Muthu gounder S/o. Ponna gounder.
		Ryot-manai	---	218/1	17.5	Murugesan S/o. Ponnusamy Minor Gopinathan guardian mother amudha.
		Ryot-manai	---	218/2	27	B.M.Abdul Razaq.
		Ryot-manai	---	218/3	30.5	Duraisamy.
		Ryot-manai	---	218/4	42	Seedeivi gounder S/o. Palani gounder.
		Ryot-manai	---	218/5	34	Kadirvelu S/o. Subbaraya pillai.
		Government	Poramboke	218/6	42	State Government of Tamil Nadu

1	2	3	4	5	6	7
		Government	Poramboke	218/7	70.5	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	218/8	72.5	State Government of Tamil Nadu
		Ryot-manai	---	218/10A	10.5	Nagaraj S/o. Palani gounder.
		Ryot-manai	---	218/11	43.5	1. Valligmmal W/o. Perumal 2. Kandasamy S/o. Perumal 3. Ramasamy S/o. Perumal.
		Ryot-manai	---	218/12	84	Subramani S/o. Palani gounder
		Ryot-manai	---	218/13	60.5	Gandhi S/o. Ponnusamy.
		Government	Poramboke	218/17	203	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	219/1	40	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	219/2	32	State Government of Tamil Nadu
		Ryot-manai	---	219/3	50	Neelambal W/o. Selvakumar.
		Ryot-manai	---	219/4	62.5	Murugesan S/o. Sidda gounder.
		Ryot-manai	---	219/5	60	Muniyan S/o. Sidda gounder.
		Government	Poramboke	219/6	35	State Government of Tamil Nadu
		Ryot-manai	---	219/7	18	Govindan S/o. Sidda gounder.
		Ryot-manai	---	219/8	16	Ramu S/o. Sidda gounder.
		Ryot-manai	---	219/9	15	Ramu S/o. Sidda gounder.
		Ryot-manai	---	219/10	13.5	Ganesan S/o. Sidda gounder.
		Ryot-manai	---	219/11A	26	Venkatachalam S/o. Sidda gounder.
		Ryot-manai	---	219/12	28.5	Sekar S/o. Kulandai gounder.
		Ryot-manai	---	219/13	46.5	Kulandai gounder S/o. Rama gounder.
		Government	Poramboke	220/1	592.5	State Government of Tamil Nadu
		Ryot-manai	---	220/2	63	Jayalakshmi S/o. Madiyalagan.
		Ryot-manai	---	220/3	42	Madiyalagan S/o. Muthu gounder.
		Ryot-manai	---	220/4	39	Palaniappan S/o. Seedvi gounder.
		Ryot-manai	---	220/5	138.5	Subramani S/o. Manickam.
		Ryot-manai	---	220/6	67	Palaniappan S/o. Seedvi gounder.
		Ryot-manai	---	220/7	44.5	Arumugam S/o. Perumal .
		Ryot-manai	---	220/8	13.5	Perumal S/o. Kulandai gounder.

1	2	3	4	5	6	7
2	Dasagasamudram	Private	Dry	6/1B	550	1. Indirani W/o Madhappan 2. Kumar S/o Madhappan 3. Venkatesan S/o Madhappan 4. Ramasamy S/o Chinnappan 5. Vaiyapuri S/o Krishnagounder
		Private	Dry	6/3B	700	Vaiyapuri S/o Krishna gounder
		Private	Dry	6/4A2	700	Madhu S/o Perumal
		Private	Dry	6/4C2	500	Manusamy S/o Chinnappagounder
		Private	Dry	7/1C2	650	Ramalingam S/o Angappan
		Private	Dry	7/1D2	800	Angamuthu S/o Angappan
		Private	Dry	7/2A2	1050	1. Perumal S/o Muthan 2. Venkatachalam S/o Ramasamy 3. Govindan S/o Ramasamy 4. Executive Director Dr. Elizabeth Jowams Medical Trust
		Private	Dry	7/2B2	200	1. Muthu S/o Nallan 2. Balasubramanian S/o Siddhan
		Private	Dry	7/3A2	1750	Executive Director Dr. Elizabeth Jowams Medical Trust
		Private	Dry	7/3B2	450	Lilawathi W/o Natesan
		Private	Dry	8/8B2	850	1. Govindan S/o Ramasamy gounder 2. Venkatachalam S/o Ramasamy gounder 3. Ramu S/o Ramasamy gounder 4. Rukmani W/o Gopalakrishnan
		Private	Dry	8/9B2	900	Lakshmiammal W/o Krishnan
		Private	Dry	9/4A2	150	1. Govindan S/o Ramasamy gounder 2. Venkatachalam S/o Ramasamy gounder 3. Ramu S/o Ramasamy gounder 4. Rukmani W/o Gopalakrishnan
		Private	Dry	9/5A2	350	Govindasamy S/o Kaveri gounder
		Private	Dry	9/8A2	800	1. Govindasamy S/o Kaveri gounder 2. Rukumani W/o Govindasamy

1	2	3	4	5	6	7
		Private	Dry	9/8B	100	Sevigounder S/o Arumugam
		Private	Dry	9/8C	100	Govindasamy S/o Arumugam
		Private	Dry	9/9A	100	Govindasamy S/o Arumugam
		Private	Dry	9/9B2	81	Jayaraman S/o Kandasamy
		Private	Dry	9/9C2	220	Commissioner Panchayat Union Kadayampatty
		Private	Dry	9/9D	100	Perumal S/o Kolandagounder
		Private	Dry	9/9E2	300	Jayaraman S/o Kandasamy
		Private	Dry	9/9F	800	1. Manickam S/o Kandasamy 2. Gunasekaran S/o Manickam
		Private	Dry	9/12A2	276	Govindasamy S/o Kaverigounder
		Government	Poramboke	9/14	300	Arulmegu Perumal Koil
		Government	Poramboke	9/15	50	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	9/16	1250	State Government of Tamil Nadu
		Private	Dry	14/2B2	1800	Natesan S/o Kunju @ Kaveri gounder
		Private	Dry	15/2	4700	1. Dhasarathan S/o Sendrayagounder 2. Govindasamy S/o Sendrayagounder 3. Ramar S/o Sendrayagounder 4. Ramalingam S/o Sendrayagounder 5. Manickam S/o Palaniappa gounder 6. Srinivasan S/o Ramachandran 7. Indrani W/o Balakrishnan 8. Venkatachalam S/o Arumugam G. Rajalingam S/o Arumugam
		Private	Dry	22/1A	1300	Akbarali S/o Bashasahiff
		Private	Dry	22/2A	200	1. Nagammal W/o Shanmugam 2. Nagarathinam W/o Dharmalingam 3. Saraswathi W/o Gopal
		Private	Dry	22/2B1	750	Mohandas S/o Muthusamypandaram
		Private	Dry	22/2C1	600	Sadhasivam S/o Muthusamypandaram

1	2	3	4	5	6	7
		Private	Dry	22/2D1	150	1. Ganesan S/o Muthusamy 2. Mohandas S/o Muthusamy 3. Nanchammal W/o Muthusampandaram 4. Sadhasivam W/o Muthusampandaram
		Private	Dry	22/2D3	50	1. Ganesan S/o Muthusampandaram 2. Mohandass S/o Muthusampandaram 3. Sadhasivam S/o Muthusampandaram 4. Nanchammal S/o Muthusampandaram
		Private	Dry	22/2E1	350	1. Ganesan S/o Muthusampandaram 2. Indrani W/o Ganesan
		Private	Dry	22/2F1	250	Mohan Dass S/o Muthusampandaram
		Private	Dry	22/2G1	250	Sadhasivam S/o Muthusampandaram
		Private	Dry	22/2H1	600	Ganesan S/o Muthusampandaram
		Government	Poramboke	23/1	200	State Government of Tamil Nadu
		Private	Dry	23/2A1	700	Ravikumar S/o Pachiappan
		Private	Dry	23/2B1	850	Ravikumar S/o Pachiappan
		Private	Dry	23/2C1A	250	Ravikumar S/o Pachiappan
		Private	Dry	25/1A1	150	Mariammai W/o Settu
		Private	Dry	25/1B1	50	1. Madhayan S/o Periyakaveri 2. Chinnakaveri S/o Murugan
		Private	Dry	25/2A	550	Perumalpannadi S/o Maranpannadi
		Private	Dry	25/3A	800	1. Perumalpannadi S/o Maranpannadi
		Private	Wet	26/2A1	200	1. Ramayeeammal W/o Dhasagounder 2. Krishnagounder 3. Manickam S/o Dasagounder 4. Rajavelu S/o Dasagounder 5. Nallugounder S/o Koundappagounder 6. Murugesan S/o Koundappagounder 7. Ramar S/o Dhasagounder

1	2	3	4	5	6	7
		Private	Wet	26/2B1	350	1. Ramayeeammal W/o Dhasagounder 2. Krishnagounder 3. Manickam S/o Dasagounder 4. Rajavelu S/o Dasagounder 5. Ramar S/o Dhasagounder
		Private	Wet	26/2B3	2000	1. Ramayeeammal W/o Dhasagounder 2. Ramar S/o Dhasagounder 3. Krishnan S/o Dhasagounder 4. Manickam S/o Dhasagounder 5. Rajavelu S/o Dhasagounder
		Private	Dry	53/1B1A	74	Krishnasamysyngar S/o RamasamyAyyangar
		Private	Dry	53/1B3A	500	Ramagounder S/o Sengodagounder
		Private	Dry	53/4B1A	170	Govindagounder S/o Periyapanchali
		Private	Dry	53/4B2A	100.	Kolanthagounder S/o Periyapanchalai
		Private	Dry	53/4B3A	150	1. Govindasamy S/o Venkatachalam 2. Samvel S/o Venkatachalam 3. Natarajan S/o Venkatachalam
		Private	Dry	53/4B4A	100	1. Narayanan S/o Periyapanchalai 2. Thangaraj S/o Narayanan
		Private	Dry	53/6B1A	550	Mathalaimuthu S/o Chinnapaiyagounder
		Private	Dry	53/7B1A	400	Govindagounder S/o Periyapanchali
		Private	Dry	53/8B1	450	Perumal S/o Chinnappagounder
		Private	Dry	55/1A2	350	Mallugounder S/o Goundappagounder
		Private	Dry	55/1B2	200	Ramasamygounder S/o Pannadigounder
		Private	Dry	55/1C2	450	Goundappan S/o Lakshmanagounder
		Private	Dry	55/1D2	200	Murugesan S/o Goundappan
		Private	Dry	55/1E2	400	Mallugounder S/o Goundappagounder
		Private	Dry	55/1G2	100	Ramasamygounder S/o Pannadigounder
		Private	Dry	55/1 I 2	200	Goundappan S/o Lakshmanagounder
		Private	Dry	55/1J2	187	Mallugounder S/o Goundappagounder

1	2	3	4	5	6	7
		Private	Dry	55/1N2	100	1. Shanmugam S/o Goundappan
		Private	Dry	55/1 O 2	100	1. Murugesan S/o Goundappan 2. Arumugam S/o Goundappan 3. Shanmugam S/o Goundappan 4. Nallugounder S/o Goundappan 5. Rangasamy S/o Pannadigounder 6. Goundappan S/o Lakshmanan 7. Thangam W/o Palanisamy
		Government	Poramboke	55/3	1700	State Government of Tamil Nadu
		Private	Dry	56/1A2	500	Thangaraj S/o Govindasamy
		Private	Dry	56/1B2	1800	Thangaraj S/o Govindasamy
		Private	Dry	56/1C2	50	1. Chandrasekaran S/o Govindasamy 2. Thangaraj S/o Govindasamy
		Private	Dry	56/2B	2350	Bakkiyam W/o Rajuchetty
		Private	Dry	57/1A2	1300	Idumpagounder S/o Muthugounder
		Private	Dry	57/1B2	1100	Palanigounder S/o Muthugounder
		Private	Dry	57/2A2	250	Palanigounder S/o Muthugounder
		Private	Dry	57/2B2	50	1. Palanigounder S/o Muthugounder 2. Lakshmanan S/o Rajagopalan
		Private	Dry	57/2C2	750	1. Dhanakodi S/o Lakshmanan 2. Saroja W/o Mathu
		Private	Dry	57/3B	350	1. Dhanakodi S/o Lakshmanan 2. Sambu W/o Duraisamy
		Private	Dry	60/1A2	700	Arjunan S/o Venkatachalam
		Private	Wet	63/1A	850	Shanmugam S/o Goundappan
		Private	Wet	63/5A	25	Goundappan S/o Ramasamy 2. Govindan S/o Goundappan
		Private	Wet	63/6A	21	Manickam S/o Ramasamy
		Private	Wet	63/7	50	Arumugam S/o Ramasamy
		Private	Wet	63/8	50	Govindan S/o Ramasamy
		Private	Wet	63/9	100	Govindan S/o Ramasamy
		Private	Wet	63/10	200	Govindan S/o Ramasamy

1	2	3	4	5	6	7
		Private	Wet	63/11	250	1. Goundappan S/o Ramasamy 2. Arumugam S/o Ramasamy
		Private	Wet	63/12A	100	1. Govindan S/o Ramasamygounder 2. Palani S/o Ramasamygounder
		Private	Wet	63/13A	600	1. Goundappan S/o Ramasamygounder 2. Govindasamy S/o Ramasamygounder
		Private	Wet	63/14A	600	Shanmugam S/o Goundappan
		Private	Wet	63/15A	200	Manickam S/o Ramasamy
		Private	Wet	63/16A	200	Arumugam S/o Ramasamy
		Private	Wet	63/17A	150	Palanisamy S/o Ramasamy
		Private	Wet	63/18A	150	Govindan S/o Ramasamy
		Private	Dry	65/1A1	333	1. Sadayagounder S/o Aanaigounder 2. Chinnathambi S/o Aanaigounder 3. Ponnusamy S/o Annaigounder
		Private	Dry	65/1C1	400	Chinnathambi S/o Aanaigounder
		Private	Dry	65/1E1	450	Ponnusamy S/o Aanaigounder
		Private	Dry	65/1F1	650	Sadayagounder S/o Aanaigounder
		Private	Dry	65/2A1	500	Chinnathambi S/o Aanaigounder
		Private	Dry	65/2B1	1000	Ponnusamy S/o Aanaigounder
		Private	Dry	65/2C1	150	Marappagounder S/o Chellappagounder
		Ryot- Manai		82/1	168	Vellaiyan S/o Muthu
		Ryot- Manai		82/2A	64	Munian S/o Muthu
		Government	Poramboke	82/5	544	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	83/1	675	State Government of Tamil Nadu
		Ryot- Manai		83/2A	93.5	Soundararajan S/o Seerangan
		Ryot- Manai		83/7A	4	Annamalai S/o Veeran
		Government	Poramboke	83/8	78	State Government of Tamil Nadu
		Ryot- Manai		83/9A	139.5	Marakkal W/o Maran
		Ryot- Manai		83/17A	101.5	Perumal S/o Siddhan
		Ryot- Manai		83/18	132.5	C. Balasubramaniam
		Ryot- Manai		83/19A	89	Mani S/o Raman
		Ryot- Manai		83/20A	1	Pappa W/o Balasubramaniam

1	2	3	4	5	6	7
		Government	Poramboke	83/25	17	State Government of Tamil Nadu
		Ryot- Manai		85/1	160.5	Rathinasamy S/o Govindagounder
		Government	Poramboke	85/2	64.5	State Government of Tamil Nadu
		Ryot- Manai		85/3	86.5	Sivakumar S/o Perumal
		Ryot- Manai		85/4	114	Subramani S/o Perumalgounder
		Ryot- Manai		85/5A	51.5	1. Lakshmi W/o Koothan 2. Chellammal D/o Kothan
		Ryot- Manai		85/7A	7.5	Pappa W/o Kandasamy
		Ryot- Manai		85/8A	133.5	Krishnagounder S/o Mannagounder
		Ryot- Manai		85/9A	133	Venkattu S/o Ramasamy
		Ryot- Manai		85/11A	162.5	Manickam S/o Kandasamy
		Ryot- Manai		85/12	107.5	Salammal W/o Jayaraman
		Government	Poramboke	85/13	71	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	85/15	60	State Government of Tamil Nadu
		Ryot- Manai		86/1A	23	Thangavel S/o Perumal
		Government	Poramboke	86/25	1.5	State Government of Tamil Nadu
		Ryot- Manai		90/1	76	Govindammal W/o Gopal
		Government	Poramboke	90/2	81	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	90/3	83	State Government of Tamil Nadu
		Ryot- Manai		90/4A	15.5	Madhaiyan S/o Thambiappan
		Ryot- Manai		90/5A	159.5	Johseph S/o Devarsirvatham
		Government	Poramboke	90/6	36	State Government of Tamil Nadu
		Government	Poramboke	90/7	132	State Government of Tamil Nadu
		Ryot- Manai		90/11A	77	Ramasamy S/o Muthugounder
		Ryot- Manai		90/12	45	Madhiyan S/o Muthugounder
		Ryot- Manai		90/13	45	Ramasamy S/o Govindagounder
		Ryot- Manai		90/14	47.5	Lakshmi W/o Ramakrishnan
		Government	Poramboke	90/15	62.5	State Government of Tamil Nadu
		Ryot- Manai		90/17A	139.5	Ramar S/o Kuppusamygounder
		Government	Poramboke	90/18	156	State Government of Tamil Nadu
		Ryot- Manai		90/19A	47	Chinnathayee W/o Narayanan
		Ryot- Manai		90/20A	101.5	Kasthuri W/o Ranganathan
		Government	Poramboke	90/21	108.5	(School Vacant)
		Government	Poramboke	91/1	204	(School Vacant)
		Government	Poramboke	91/3	165.5	(School Vacant)

1	2	3	4	5	6	7
		Ryot- Manai		91/4A	60	Periyasamy S/o Muthulingam
		Ryot- Manai		91/5A	27.5	Kandasamy asari S/o Muthulingam
		Ryot- Manai		91/6A	27.5	Palaniammal W/o Venugopal
		Ryot- Manai		91/7A	34.5	Govindaraj S/o Govindan
		Government	Poramboke	91/8	67.5	Path

[No. NHAI/15/2003/LA/RR-AA]

A. V. SINGH, Secy.